

अन्दर के पृष्ठों में...

भाग-A भूगोल का परिचय

1. पृथ्वी का उद्भव

- भूवैज्ञानिक काल मापक्रम (GTS)

2. पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशान्तर

- पृथ्वी की गति
- पृथ्वी का धूर्णन
- अयनांत तथा विषुव
- सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण
- अक्षांश
- देशान्तर

भाग-B भू-आकृति विज्ञान

3. पृथ्वी की आन्तरिक संरचना

- भूकंपीय तरङ्गें
- पृथ्वी की संरचना
- भूचुम्बकीय क्षेत्र

4. महासागरों तथा महाद्वीपों का वितरण

- विशिष्ट विशेषताएँ
- महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण
- संवहन-धारा सिद्धांत
- सागरीय अधरस्थल विस्तार
- प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत
- भारतीय प्लेट संचलन

5. भूकंप तथा ज्वालामुखी

- भूकंप
- भूकंप के प्रकार
- भारत का भूकंपीय क्षेत्र
- ज्वालामुखी
- ज्वालामुखीय स्थलाकृतियाँ
- आन्तरिक ज्वालामुखीय स्थलाकृतियाँ
- ज्वालामुखी का वितरण

6. स्थलाकृतियाँ और उसका विकास

- भू-आकृतिक प्रक्रिया
- उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण
- वलित पर्वत तथा प्लेट सीमाएँ
- अपरदन व निष्केपण

भाग-C जलवायु विज्ञान

7. वायुमण्डल का संघटन एवं संरचना

- वायुमण्डल का संघटन
- वायुमण्डल की संरचना

8. सूर्यांतर, ताप बजट और तापमान

- सूर्यांतर
- ऊष्मा संतुलन तथा ऊष्मा बजट
- पृथ्वी का एल्विडो
- तापमान का वितरण
- तापमान व्युत्क्रमण

1-18	9. वायुदाब एवं वायुमण्डलीय परिसंचरण	99
1	• वायुमण्डलीय दाब	99
3	• विश्व की दाब पेटियाँ	100
7	• वायुमण्डलीय स्थानान्तरण	105
7	• पवनों का वर्गीकरण	107
9	• जेट प्रवाह	113
10	10. आद्रेता तथा वर्षण	116
12	• आद्रेता	116
15	• वाष्पीकरण	118
	• संघनन	119
	• वर्षण	125
19-74	11. वायुराशि, वाताग्र तथा चक्रवात	131
19	• वायुराशि	131
20	• वाताग्र	134
24	• उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात	137
27	• शीतोष्ण चक्रवात	142
31	• उष्ण कटिबन्धीय बनाम समशीतोष्ण चक्रवात	145
31	• प्रति चक्रवात	147
33	12. विश्व जलवायु क्षेत्र	148
35	13. भारतीय जलवायु	155
36	• भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक	155
39	• अंतः उष्णकटिबन्धीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ)	157
45	• अलनीनो और भारतीय मानसून	161
46	• हिंद महारागर द्विधूत (आई ओ डी)	164
46	• भारतीय मानसून की प्रकृति	165
47	• वर्षा का वितरण	167
51	• जलवायु क्षेत्र	168
54	भाग-D समुद्र विज्ञान	171-204
56	14. समुद्र तल की उच्चावच विशेषताएँ	171
60	• जल विज्ञान चक्र	171
61	• महासागरीय घाटियों की उच्चावच विशेषताएँ	173
63	15. तापमान एवं लवणता	178
65	• समुद्री जल का तापमान	178
69	• समुद्री जल की लवणता	182
71	• समुद्री लवणता का वितरण	184
75-170	16. समुद्री परिसंचरण-ज्वार एवं समुद्री धाराएँ	186
75	• लहरें	186
75	• ज्वार	188
77	• महासागरीय धाराएँ	192
82	• महासागरीय धाराओं के प्रभाव	195
82	17. प्रवाल भित्ति तथा यू एन सी एल ओ एस	197
87	• प्रवाल भित्ति और एटोल	197
91	• प्रवाल विरंजन	201
92	• यू एन सी एल ओ एस	202
94		